



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 262]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 13, 2007/फाल्गुन 22, 1928

No. 262]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 13, 2007/PHALGUNA 22, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2007

का.आ. 360(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1850(अ), तारीख 27 अक्टूबर, 2006, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के चेन्नई जिले के एगमोर-नंगमबक्कम तालुक के कोयमबेडु गाँव में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के मदुरावोल बाईपास से कोयमबेडु जंक्शन तक सड़क को चौड़ा करने के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 30 नवम्बर, 2006 को "दि न्यू इंडियन एक्सप्रेस" और "दिनामनी" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के चेन्नई जिले के एगमोर-नंगमबक्कम तालुक के कोयमबेडु गाँव में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 को चौड़ा करने के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	ब्लॉक संख्या	टाउन सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	चेन्नई	एगमोर नंगमबक्कम	कोयमबेडु	41	2/6	निजी	रैय्यतवाड़ी मनाई	207	थिरु आर राजकुमार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			कोयम्बेडु--(जारी) 41		2/8	निजी	रैयतवादी मनाई	43	थिरु मणिमुथु नादर

[फा. सं. भाराग्रा/13012/4/98-पीआई/3डी/कोयम्बेडु/एलए/एसपी]

प्रभाकर, उप-सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2007

S.O. 360(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O.1850(E), dated the 27th October, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), and issued under Sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land, specified in the Schedule annexed to the said notification for widening of road from Maduravoyal By-pass to Koyambedu Junction in National Highway No.4, Koyambedu village, Egmore -Nungambakkam Taluk, Chennai District in the State of Tamil Nadu;

And whereas, the substance of the said notification has been published in "The New Indian Express" and "Dinamani", both dated the 30th November, 2006, under Sub-section (3) of Section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority;

And whereas in pursuance of Sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of Sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for widening of National Highway No. 4 in Koyambedu village, Egmore-Nungambakkam Taluk, Chennai District in the State of Tamil Nadu.

Sl. No.	Name of the District	Name of the Taluk	Name of the Village	Block number	Town Survey Number	Type of land	Nature of land	Extent (in Square meters)	Name of the landowner/ interested person
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Chennai	Egmore-Nungambakkam	Koyambedu	41	2/6	Private	Ryotwari Manai	207	Thiru R. Rajkumar
				41	2/8	Private	Ryotwari Manai	43	Thiru Manimuthu Nadar

[F. No. NHA/13012/4/98-PI/3D/Koyambedu/LA/SP]

PRABHAKAR, Dy. Secy.